



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

14 फाल्गुन, 1940 (श०)

संख्या- 175 राँची, बुधवार,

6 मार्च, 2019 (ई०)

---

#### नगर विकास एवं आवास विभाग

-----  
अधिसूचना

5 मार्च, 2019

**अधिसूचना संख्या-05/न०वि०/विविध-49/2017-1020--** नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड द्वारा झारखण्ड के बड़े शहरों में Bhopal Smart City की भाँति पी०पी०पी० मोड पर Smart Pole का अधिष्ठापन करने पर विचार किया जा रहा है। इन Smart Pole के द्वारा एक साथ कई प्रकार की स्मार्ट सेवाएँ आम जनता को उपलब्ध कराना संभव हो सकेगा। इसके अन्तर्गत ऊर्जा दक्ष एवं रिमोट नियंत्रित LED Street Light, दूरसंचार टॉवर, वाई-फाई सेवा, सुरक्षा के लिए निगरानी कैमरा, वायु की गुणवत्ता, तापमान एवं आद्रता को मापने हेतु Environmental Sensor, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग प्वाइन्ट, आदि की सेवाएँ दी जाएंगी।

2. उक्त क्रम में पी०पी०पी० मोड पर स्मार्ट पोल के अधिष्ठापन की संभाव्यता एवं इसके लिए नीति निर्माण पर विचार हेतु निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय, झारखण्ड की अध्यक्षता में एक समिति के गठन का निर्णय लिया गया है। इस समिति के सदस्य निम्नवत होंगे :-

- 
- |       |   |   |          |
|-------|---|---|----------|
| (i)   | निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय, झारखण्ड                                   | - | अध्यक्ष। |
| (ii)  | श्रीमती मनीषा जोसेफ तिग्गा, उप सचिव,<br>नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड | - | सदस्य।   |
| (iii) | उप निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण, झारखण्ड                               | - | सदस्य।   |
| (iv)  | महाप्रबंधक (तकनीकी), राँची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लि०                     | - | सदस्य।   |
| (v)   | उप नगर आयुक्त, राँची नगर निगम   | - | सदस्य।   |
3. उक्त प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,

**संजय बिहारी अम्बष्ठ,**  
सरकार के संयुक्त सचिव।

-----